



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2015/ आषाढ़ 17, 1937

No.441]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2015/ASHADHA 17, 1937

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2015

**सा.का.नि. 548(अ).**—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 36 के खंड (ख) के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण [कर्मचारीवृन्द] (सेवा की शर्तों) नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ग) “अधिकरण” से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके समनुदेशित हैं।

**3. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन-बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद - संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथानिर्दिष्ट हैं।

**4. सेवा की शर्तें.**—वेतन, भत्ते, छुट्टी, कार्यग्रहण की अवधि, कार्यग्रहण अवधि वेतन, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, यात्रा भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदे, चिकित्सीय सुविधाओं और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को, ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की तत्स्थानी वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान यथास्थिति समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर लागू होते हैं।

**5. अवशिष्ट उपबंध.**—अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और निबंधनों संबंधी किन्हीं विषयों की बाबत जिनका इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, अधिकरण द्वारा इसके विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

**6. शिथिल करने की शक्ति.**—केन्द्रीय सरकार को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करने की शक्ति होगी।

[सं. ए-11013/11/2014-ए.टी.]

देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

### अनुसूची

क्र.सं.	पद का नाम	पद संख्या	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रधान रजिस्ट्रार	01	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रुपए सहित ग्रेड वेतन 10000 रुपए
2.	रजिस्ट्रार	09	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रुपए सहित ग्रेड वेतन 8700 रुपए
3.	वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी	01	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रुपए सहित ग्रेड वेतन 8700 रुपए
4.	संयुक्त रजिस्ट्रार	11	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए सहित ग्रेड वेतन 7600 रुपए
5.	ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव	01	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए सहित ग्रेड वेतन 7600 रुपए
6.	उप रजिस्ट्रार	24	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए सहित ग्रेड वेतन 6600 रुपए
7.	उप लेखा नियंत्रक	01	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए सहित ग्रेड वेतन 6600 रुपए
8.	प्रधान निजी सचिव	16	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए सहित ग्रेड वेतन 6600 रुपए
9.	उप निदेशक (डीओसी)	01 (समाप्त किया गया समझा जाए)	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए सहित ग्रेड वेतन 6600 रुपए
10.	पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	01	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए सहित ग्रेड वेतन 6600 रुपए

11.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	01	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए सहित ग्रेड वेतन 5400 रुपए
12.	अनुभाग अधिकारी/ न्यायालय अधिकारी	88	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए सहित ग्रेड वेतन 4800 रुपए वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए सहित ग्रेड वेतन 5400 रुपए (चार वर्ष पूरे करने पर)
13.	निजी सचिव	65	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए सहित ग्रेड वेतन 4800 रुपए वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए सहित ग्रेड वेतन 5400 रुपए (चार वर्ष पूरे करने पर)
14.	लेखा अधिकारी	16	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए सहित ग्रेड वेतन 4600 रुपए
15.	कोर्ट मास्टर/ आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	69	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए सहित ग्रेड वेतन 4600 रुपए
16.	सहायक	55	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए सहित ग्रेड वेतन 4600 रुपए
17.	ज्येष्ठ अनुवादक	06	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए सहित ग्रेड वेतन 4600 रुपए
18.	सहायक पुस्कालय और सूचना अधिकारी	10	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए सहित ग्रेड वेतन 4600 रुपए
19.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	17	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए सहित ग्रेड वेतन 4200 रुपए
20.	कनिष्ठ अनुवादक	13	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए सहित ग्रेड वेतन 4200 रुपए
21.	पुस्तकालय और सूचना सहायक	06	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए सहित ग्रेड वेतन 4200 रुपए
22.	केयरटेकर	18	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए सहित ग्रेड वेतन 4200 रुपए
23.	स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	03	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए सहित ग्रेड वेतन 4200 रुपए
24.	ज्येष्ठ लेखाकार	03	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए सहित ग्रेड वेतन 2800 रुपए
25.	स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)	18	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए सहित ग्रेड वेतन 2800 रुपए
26.	कनिष्ठ लेखाकार	05	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए सहित ग्रेड वेतन 2400 रुपए
27.	उच्च श्रेणी लिपिक	121	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए सहित ग्रेड वेतन 2400 रुपए
28.	स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)	15	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए सहित ग्रेड वेतन 2400 रुपए
29.	आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	32	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए सहित ग्रेड वेतन 2400 रुपए
30.	अवर श्रेणी लिपिक/हिंदी टंकक	204	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए सहित ग्रेड वेतन 1900 रुपए
31.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	02	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए सहित ग्रेड वेतन 1900 रुपए
32.	स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	15	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए सहित ग्रेड वेतन 1900 रुपए
33.	गैस्टेटरनर आपरेटर	12	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए सहित ग्रेड वेतन 1900 रुपए
34.	फोटोकापियर	18	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए सहित ग्रेड वेतन 1900 रुपए
35.	सवार हरकारा	07	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए सहित ग्रेड वेतन 1900 रुपए
36.	बहु कार्य कर्मचारिवृन्द	419	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए सहित ग्रेड वेतन 1800 रुपए

ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर, दफ्तरी, जमादार, कनिष्ठ पुस्तकालय परिचर, चपरासी, सफाईवाला/फराश, चौकीदार और माली के पदों को एक साथ मिला दिया गया और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर बहु कार्य कर्मचारिवृन्द के रूप में पुनःपदाभिहित किया गया है।

[सं. ए-11013/11/2014-ए. टी.]

देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

### (Department of Personnel and Training)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2015

**G.S.R. 548(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 read with clause (b) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) and in supersession of the Central Administrative Tribunal [Staff] (Conditions of Service) Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the salaries and allowances and conditions of service of the officers and other employees of the Central Administrative Tribunal, namely:-

**1. Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (salaries, allowances and conditions of service of the officers and employees) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);

(b) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules;

(c) “Tribunal” means the Central Administrative Tribunal established under sub-section (1) of section 4 of the Act.

(2) The words and expression used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** – The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in the Schedule annexed to these rules.

**4. Conditions of Service.** – The conditions of service of the officers and employees of the Tribunal in the matters of pay, allowances, leave, joining time, joining time pay, provident fund, age of superannuation, travelling allowance and leave travel concession, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are from time to time applicable to officers and employees of the Central Government belonging to Group ‘A’, Group ‘B’ and Group ‘C’, as the case may be, of the corresponding pay band and grade pay or pay scale of officers and employees of the Central Government.

**5. Residuary provision.** – Matters relating to the terms and conditions of service of the officers and employees of the Tribunal with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Tribunal to the Central Government for its decision.

**6. Power to relax.** – The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category of persons.

**SCHEDULE**

Sl. No.	Name of the post.	No. of posts.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Principal Registrar.	01	Pay band-4, Rs. 37400-67000 with Grade Pay of Rs. 10000.
2.	Registrar.	09	Pay band-4, Rs. 37400-67000 with Grade Pay of Rs. 8700.
3.	Financial Advisor and Chief Account Officer.	01	Pay band-4, Rs. 37400-67000 with Grade Pay of Rs. 8700.
4.	Joint Registrar.	11	Pay band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600.
5.	Senior Principal Private Secretary.	01	Pay band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600.
6.	Deputy Registrar.	24	Pay band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600.
7.	Deputy Controller of Accounts.	01	Pay band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600.
8.	Principal Private Secretary.	16	Pay band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600.
9.	Deputy Director (Doc.)	01 (Deemed abolished)	Pay band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600.
10.	Library and Information Officer.	01	Pay band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600.
11.	Assistant Director (Official Language).	01	Pay band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400.
12.	Section Officer/Court Officer.	88	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4800. Pay band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400 (on completion of four years).
13.	Private Secretary.	65	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4800. Pay band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400 (on completion of four years).
14.	Accounts Officer.	16	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600.
15.	Court Master/Steno Grade 'C'.	69	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600.
16.	Assistant	55	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600.
17.	Senior Translator.	06	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600.
18.	Assistant Library and Information Officer.	10	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600.
19.	Junior Accounts Officer.	17	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200.
20.	Junior Translator.	13	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200.
21.	Library and Information Assistant.	06	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200.
22.	Caretaker.	18	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200.
23.	Staff Car Driver (Special Grade).	3	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200.
24.	Senior Accountant.	03	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2800.
25.	Staff Car Driver (Grade-I).	18	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2800.
26.	Junior Accountant.	05	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400.
27.	Upper Division Clerk.	121	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400.
28.	Staff Car Driver (Grade-II).	15	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400.
29.	Steno Grade 'D'.	32	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400.
30.	Lower Division Clerk/Hindi Typist.	204	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900.
31.	Data Entry Operator.	02	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900.
32.	Staff Car Driver (Ordinary Grade).	15	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900.

33.	Gestetner Operator.	12	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900.
34.	Photocopier.	18	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900.
35.	Despatch Rider.	07	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900.
36.	Multi Tasking Staff.*	419	Pay band-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1800.

- Posts of Senior Library Attendant, Daftary, Jamadar, Junior Library Attendant, Peon, Safaiwala/farash, Chowkidar and Mali had been clubbed together and re-designated as Multi Tasking Staff on the implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission.

[No. A-11013/11/2014-AT]

DEVESH CHATURVEDI, Jt. Secy.